

## Weekly One Liners 9 से 15 मार्च 2020

### Byju के रवेन्द्रन और ZOMATO के गौरव गुप्ता WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल

**बायजूस (Byju)** क्लासेस के संस्थापक **बायजूस रवेन्द्रन** और **ज़ोमेटो** के सह-संस्थापक **गौरव गुप्ता** उन पाँच भारतीयों में शामिल हैं, जिन्हें विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी की जाने वाली 115 युवा वैश्विक नेताओं की नई सूची में शामिल किया गया है। 2015 में Byju को लॉन्च करने वाले रवींद्रन खुद को पेशे से एक शिक्षक व संयोग से एक उद्यमी बताते हैं। गुप्ता का Zomato एक भविष्य आधारित फूड प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप रहा है, जिसे उन्होंने टेबल रिजर्व करने के व्यवसाय के रूप में शुरू किया और फिर पूरे भारत समेत UAE और ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार किया।

#### सूची में शामिल अन्य तीन भारतीय:-

- **तारा सिंह वचानी** (अंतरा सीनियर लिविंग की सीईओ), वचानी की अगुवाई वाली अंतरा सीनियर लिविंग कंपनी वरिष्ठ नागरिकों का जीवन स्तर, दिनचर्या और स्वास्थ्य बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है, साथ ही इसे पहले भारतीय उद्यम के रूप में जाना जाता है जो जीवंत आवासीय समुदायों का निर्माण करता है जो स्वास्थ्य देखभाल के साथ जीवन शैली प्रदान करते हैं।
- **विनती मुतरेजा** (प्रबंध निदेशक और सीईओ, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड), मुतरेजा की अगुवाई वाली विनती ऑर्गेनिक्स रसायन क्षेत्र की कंपनी है, उन्होंने पर्यावरण हितैषी रासायनिक क्रियाओं और उत्पादों के चयन के लिए एक नवोन्मेषी तरीका विकसित किया है।
- **स्वपन मेहरा** (सीईओ, इओरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस), मेहरा के नेतृत्व वाली आयोरा देश में जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संरक्षण की दिशा में काम करती है।

इन पांच भारतीयों को अमेरिका की महिला फुटबॉल टीम की सह-कप्तान मेगन रापीनो, विश्व प्रसिद्ध सड़क कलाकार जेआर, न्यूजीलैंड के पहले शरणार्थी सांसद गोलरिज़ घर्हमन, फ़िनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री सन्ना मरीन, BBC की अफ्रीका बिजनेस एडिटर लैरी मडवो और श्याओमी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार अध्यक्ष चैव शॉ ज़ी के साथ 2020 की यंग ग्लोबल लीडर्स सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा सूची में मुहम्मद हम्मद अजहर (पाकिस्तान में आर्थिक मामलों के संघीय मंत्री), उग्येन दोरजी (श्रम और मानव संसाधन मंत्री, भूटान) और अतिका रहमान (डॉन डॉट कॉम के लिए यूके संवाददाता), पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है।

#### क्या है विश्व आर्थिक मंच के युवा वैश्विक नेताओं की सूची?

जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच ने इन बदलाव लाने वालों की सूची जारी करते हुए कहा कि दुनिया को बदलने के इन 40 से कम उम्र के लीडर्स ने अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए 52 देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों के पुनर्जीवन से लेकर भ्रष्टाचार की जांच करने तक के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। डब्ल्यूईएफ के अनुसार, 40 वर्ष से कम आयु के ये सभी व्यक्ति सबसे होनहार कलाकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं में से हैं और वे "सीमाओं से आगे बढ़ कर अपने

लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, साथ ही जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए पारंपरिक नियमों को नया और तोड़ रहे हैं"। ये 115 व्यक्ति फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स में शामिल किए गए हैं, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ के समूह में शामिल हो गए हैं।

### टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 की घोषणा

**TOISA (टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स)** (पुरस्कारों के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गयाके भारत जिसमें . 2019 में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम **BHIM-UPI (Bharat Interface for Money- Unified Payments Interface)** द्वारा संचालित किया गया था। **रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर और पीवी सिंधु को स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर** के रूप में नामित किया गया, क्योंकि उन्होंने स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।

#### नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2019 के विजेताओं की पूरी सूची दी जा रही है:

| S. No. | पुरस्कार                     | विजेता                |
|--------|------------------------------|-----------------------|
| 1      | स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर      | P.V. सिन्धु           |
| 2      | क्रिकेटर ऑफ द ईयर            | रोहित शर्मा           |
| 3      | टीम ऑफ थे ईयर                | भारतीय पुरुष हॉकी टीम |
| 4      | कोच ऑफ द ईयर                 | जसपाल राणा            |
| 5      | इन्स्पिरेशन ऑफ द ईयर         | रानी रामपाल           |
| 6      | मेंटर ऑफ थे ईयर              | पुल्लेला गोपीचंद      |
| 7      | चेंज एजेंट ऑफ द ईयर          | ओडिशा                 |
| 8      | कॉर्पोरेट सपोर्ट ऑफ द ईयर    | रिलायंस फाउंडेशन      |
| 9      | अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ सपोर्ट | P.V. सिन्धु           |
| 10     | यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर           | विजेन्द्र सिंह        |
| 11     | लाइफटाइम अचीवमेंट            | बाईचुंग भूटिया        |
| 12.    | आइकॉन ऑफ द ईयर               | बलवीर सिंह            |

12 Months Subscription

# BANK

Useful for Bank & Insurance Exams

## TEST PACK

## डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T 20 विश्व कप खिताब जीता

डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने **मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG)** ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड पांचवी बार महिला T20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल में पहुंचने वाली भारत को **99 रन पर आउट करके 85 रन से बड़ी जीत हासिल की।** बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है।

**ICC महिला T 20 विश्व कप 2020, ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का सातवां संस्करण था। यह ऑस्ट्रेलिया में 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 तक आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट का अंतिम मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट के फाइनल मैच को शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। टूर्नामेंट में 10 टीमों शामिल थीं: भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और थाईलैंड।**

**ICC महिला T20 विश्व कप 2020 के कुछ प्रमुख आंकड़े:**

- टूर्नामेंट के शीर्ष उच्चतम रन स्कोरर: **बेथ मूनी (259)।**
- टूर्नामेंट के शीर्ष विकेट लेने वाले: **मेगन शूट (13)।**

## 2021 की पहली छमाही तक चंद्रयान -3 को लॉन्च करने की योजना

प्रधानमंत्री कार्यालय में **राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह** के अनुसार, **चंद्रयान-3** के लॉन्च के लिए संभावित कार्यक्रम 2021 की पहली छमाही में लांच करने की योजना है। चंद्रयान -3 की तैयारी पहले से लॉन्च किए गए **चंद्रयान-2** से एक चंद्रमा मिशन से सबक लेकर की गई है, जो 2019 में लॉन्च किया गया था जिसमें भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर कड़ी लैंडिंग के बाद संपर्क खो दिया था।

**चंद्रयान -3 को डिजाइन बढ़ाने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता लगभग 610 करोड़ रुपये होगी, जिसमें लॉन्च रॉकेट के लिए 360 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।** ISRO ने चंद्रयान-3 को उसी क्षेत्र में लांच करने का निर्णय लिया है जिस क्षेत्र में चंद्रयान-2 को लांच किया गया था। जितेंद्र सिंह ने भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान परियोजना का भी उल्लेख किया, जहाँ 4 जैविक और 2 भौतिक विज्ञान माइक्रोग्रैविटी से संबंधित प्रयोग किए गए हैं।

**प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:**

- इसरो का मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक।
- इसरो के अध्यक्ष: के. सिवन
- इसरो की स्थापना: 15 अगस्त 1969

## राष्ट्रीय समाचार

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक कार्यक्रम दौरान कहा कि सेनेटरी नैपकिन बनाने वालों को जनवरी 2021 से प्रत्येक नैपकिन के साथ बायोडिग्रेडेबल बैग उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।
- केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और पुलिस बलों में महिलाओं पर एक आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन" का उद्घाटन किया। साथ ही स्मृति ईरानी ने हैंड-आउट- 'बीपीआर एंड डी मिरर- जेंडर बेंडर' और "टू ग्रेटर हाइट्स" पुस्तक का भी विमोचन किया।
- केंद्र सरकार देश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) केंद्र को चलाने की योजना बना रही है। इन योजनाओं का वर्ष 2020 के अंत तक सफलतापूर्वक निष्पादित किया जाना है। ये घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आयोजित जनऔषधि दिवस समारोह में की।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) ने 12 मार्च को अपना 35 वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने NCRB के स्थापना दिवस के अवसर पर क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (NCTC) का उद्घाटन किया।
- मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में रहने वाली पर्वतारोही भावना डेहरिया ने होली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची पर्वत चोटी Mount Kosciuszko (माउंट कोसीयुस्को) (2,228-मीटर) पर फतेह कर ली है।
- डाक विभाग, कोलकाता (पश्चिम बंगाल सर्कल), ने 2 डाकघरों में निशुल्क डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा, साल्ट लेक सिटी के आईटी पोस्ट ऑफिस और न्यू टाउन के एकशन एरिया में पोस्ट ऑफिस में शुरू की है।
- भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है। दोनों मास्क (2ply और 3ply सर्जिकल मास्क, N95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत लाया गया है।

## राज्य समाचार

- ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए एक विशेष विभाग "मिशन शक्ति" होगा। इसकी स्थापना महिलाओं के विकास के लिए की गई, जो ओडिशा की महिलाओं को समर्पित है। मिशन शक्ति और ममता योजना से संयुक्त रूप से राज्य की करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।

- रांची विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन "रेडियो खांची 90.4 FM आप सबका रेडियो" का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय के 15 किलोमीटर से अधिक परिसर में फैला हुआ ये रेडियो छात्रों की सहायता के लिए शुरू किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के यांगपा गांव में पारंपरिक 'फगली' उत्सव मनाया गया। ये महोत्सव "बुराई पर अच्छाई की जीत" के प्रतीक के तौर पर आयोजित किया जाता है।
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वईएस जगन मोहन रेड्डी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में धन और शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाकर 'स्वच्छ और स्वस्थ' चुनाव कराने के लिए 'NIGHA' ऐप लॉन्च की है।

### अंतर्राष्ट्रीय समाचार

- यूक्रेन की संसद ने यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में डेनिस शिमगल को मंजूरी दी। वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेन्स्की के मनोनीत व्यक्ति हैं।
- अशरफ गनी ने दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम और मास्टरकार्ड द्वारा "COVID-19 Therapeutics Accelerator" (COVID-19 पर तेजी से चिकित्सा शोध करने के लिए) नामक से एक नया फंड जारी किया गया है। विश्व स्तर पर फैली महामारी COVID-19 से लड़ने के लिए प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने के लिए 125 मिलियन डॉलर का फंड जारी किया गया है।
- बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने 'जॉय बांग्ला' को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि शिक्षकों और छात्रों द्वारा असेंबली के बाद इस नारे का उच्चारण किया जाए।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने दुनिया भर के करीब 100 से अधिक देशों में फैल चुके COVID-19, नोबेल कोरोनावायरस के कारण होने वाली बीमारी को आधिकारिक रूप से महामारी घोषित कर दिया है।

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions



**RBI ASSISTANT  
MAINS**

**25 Total Tests | eBooks**

### समझौता / MoUs Signed

- Paytm के साथ साझेदारी में हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने तेलंगाना के रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक क्यूआर-कोड-आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू की है।
- PhonePe ने अपने ग्राहकों को UPI लेनदेन की सुविधा देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। इससे पहले PhonePe ने यस बैंक के साथ ग्राहकों को ये सुविधा मुहैया कराने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक पर अस्थाई बैंन लगाने के कारण PhonePe की UPI लेनदेन सुविधा बाधित हो गई थी।
- भारत में कम लागत वाली माने जाने वाली एयरलाइन स्पाइसजेट ने GMR हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (GHASL) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, स्पाइसजेट, GHASL के एयरोस्पेस और औद्योगिक पार्क में वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग सुविधा केंद्र शुरू करेगी। पार्क द्वारा "रेडी-टू-यूज़" औद्योगिक बुनियादी ढांचे के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एसईजेड के अंतर्गत भूमि चुनने की सुविधा दी जाती है।
- टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) ने गाम्बिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता पर हस्ताक्षर अफ्रीका में विदेश मंत्रालय की ई-विद्याभारती (टेली-शिक्षा) और ई-आरोग्यभारती (टेली-मेडिसिन) नेटवर्क परियोजना में हिस्सेदारी के लिए किए गए हैं।
- भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। इस ऋण समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की 428 ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।

### पुस्तकें एवं लेखक

- ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने "The Adventures of the Daredevil Democrat" नामक एक कॉमिक बुक का विमोचन किया। यह कॉमिक बुक ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक की 104 वीं जयंती के अवसर पर जारी की गई।

### बैंकिंग, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार समाचार

- मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि 2020 में जी-20 देशों के 2.1% बढ़ने की उम्मीद है। मूडीज के पिछले पूर्वानुमान की तुलना में मूडीज में 0.3 प्रतिशत अंक की कमी आई है, क्योंकि कोरोनावायरस के वैश्विक प्रसार के परिणामस्वरूप एक साथ आपूर्ति और मांग को झटका लगा है। इसने आगाह किया कि वैश्विक मंदी के जोखिम बढ़ गए हैं।
- भारत की MarTech कंपनी, AdGlobal360 का जापानी कंपनी Hakuhodo Inc द्वारा अधोषित राशि पर अधिग्रहण किया गया है। Adglobal360 का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, जो भारत की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली MarTech कंपनी है।

- भारत में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड "GOKADDAL" लॉन्च किया गया है। GOKADDAL, क्लाउड-आधारित चार A यानी ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज पर केंद्रित एक समाधान एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है।
- भारतीय स्टेट बैंक ने नगदी समस्या से जूझ रहे यस बैंक के 7250 करोड़ रुपये के शेयर खरीदने की घोषणा की है। यह खरीद रिजर्व बैंक द्वारा तैयार यस बैंक की पुनर्गठन योजना के मसौदे के अनुसार की जाएगी। SBI, यस बैंक के 725 करोड़ शेयर 10 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदेगा। इस सौदे के बाद, यस बैंक में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की हिस्सेदारी 49 फीसदी हो जाएगी।
- भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी savings bank accounts यानी बचत बैंक खातों पर प्रतिमाह न्यूनतम बैलेंस (minimum balance charges) न रखने पर लगने वाले चार्ज को हटा लिया है। वर्तमान में एसबीआई में कुल 44.51 करोड़ बचत बैंक खातें हैं जिन पर प्रतिमाह औसत बैलेंस (Average Monthly Balance) नहीं रखने पर लगाए जाने वाले शुल्क को माफ कर दिया गया है।

### नियुक्तियां / इस्तीफे

- विमल जुल्का को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) पद के लिए विमल जुल्का को शपथ दिलाई
- नूपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक (DIG) पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने 1999 में भारतीय तटरक्षक बल ज्वाइन की थी।
- लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस दिल्ली को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआईए) का नया महानिदेशक एवं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (इंटेलिजेंस) का डिप्टी चीफ बनाया गया है।
- हरियाणा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी सुरजीत सिंह देसवाल ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक (DG) का अतिरिक्त प्रभार संभाला है।



**BILINGUAL**

**RBI ASSISTANT MAINS**  
**COMPLETE BATCH**

Starts February 21, 2020

12pm to 2pm & 5pm to 6pm

- माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। वह वैश्विक स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अपनी फिलान्थ्रोपिक प्राथमिकताओं के लिए अधिक समय समर्पित करना चाहते हैं।

### योजनाएँ और समितियाँ

- केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए प्रमुख कार्यक्रम पोशन अभियान को लागू कर रही है। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की मदद करता है।
- भारत सरकार ने किसान रेल के तौर-तरीके को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन भारतीय रेलवे के प्रतिनिधियों और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया गया है। सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड के जरिए "किसान रेल" को स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की दुलाई के लिए कोल्ड सप्लाय चैन की सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020-21 के बजट भाषण में मछली, दूध और मांस जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक आसान राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाय चैन स्थापित करने के लिए "किसान रेल" की घोषणा की गई थी।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए तीन महत्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू की हैं। तीन योजनाएँ लखनऊ में कौशल सतरंग, युवा हब और शिक्षुता योजना हैं। यूपी सरकार ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर "आरोग्य मित्र" की भी घोषणा की।

### पुरस्कार एवं सम्मान

- प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को वर्ष 2017-2019 की अवधि के 7 वें डॉ. एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- बीबीसी के उद्घाटन संस्करण में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के खिताब से सम्मानित किया गया है।
- भारत में सिख साम्राज्य के 19 वीं सदी के शासक महाराजा रणजीत सिंह को 'बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज़ मैगज़ीन' द्वारा कराए गए एक सर्वे के बाद "ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम" (अब तक का सबसे महानतम नेता) चुना गया है। इसके अलावा बीबीसी ने पूर्व भारतीय स्प्रिंटर पीटी उषा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया।



## बैठक एवं सम्मलेन

- BIMSTEC (बि ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) समिट 2020 के 5 वें संस्करण का आयोजन सितंबर 2020 के महीने में कोलंबो, श्रीलंका में किया जाएगा।
- नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद (FICCI) के साथ मिलकर तेलंगाना के हैदराबाद में "विंग्स इंडिया 2020" कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- नासा (National Aeronautics and Space Administration) ने पांचवें मार्स (लाल ग्रह) रोवर का नाम Perseverance रखने का ऐलान किया है। इससे पहले रोवर को इसके कोडनेम मार्स 2020 के नाम से जाना जाता था।
- मंडी का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems - NM-ICPS) के तहत प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र (Technology Innovation Hub) की स्थापित करेगा। प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा आईआईटी मंडी को दी जाने वाली 7.25 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता से की जाएगी।

## रैंक और रिपोर्ट

- नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी पोषण योजना "भारत में पोषण परिवर्तन कार्यक्रम : पोषण अभियान" में आंध्र प्रदेश को अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में पहले स्थान पर रखा गया है। तमिलनाडु इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या के मामले में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है।
- गुजरात देश में छत पर सोलर पैनल लगाने के मामले में 64% सौर रूफटूफ स्थापित करने के साथ छत पर सौर पैनल लगाने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। राज्य में 2 मार्च, 2020 तक छतों पर लगभग 50,915 पैनल लगाए जा चुके हैं।
- गूगल ने 8 मार्च 2020 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली महिलाओं का डेटा साझा किया है।

गूगल द्वारा जारी की गई पूरी सूची इस प्रकार है:-

1. गूगल पर साल 2020 में म्यूजिक में सबसे अधिक खोजी जाने वाली महिला: टेलर स्विफ्ट
2. गूगल पर साल 2020 में स्पोर्ट्स में सबसे अधिक खोजी जाने वाली महिला: सेरेना विलियम्स
3. गूगल पर साल 2020 में कॉमेडी में सबसे अधिक खोजी जाने वाली महिला: अक्वाफिना
4. गूगल पर साल 2020 में नॉवेलिस्मेंट सबसे अधिक खोजी जाने वाली महिला: टोनी मॉरिसन

## खेल समाचार

- वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड श्रीलंका के खिलाफ पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में मैदान में उतरने के साथ 500 T20 मैच (Twenty20) खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
- पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने टेस्ट और वनडे में अपना डेब्यू 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था।
- अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को साल 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना जाएगा।
- सौराष्ट्र ने बंगाल के खिलाफ पहली पारी में 44 रन की बढ़त हासिल करने के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता, जो अंततः राजकोट, गुजरात में फाइनल में ड्रा में समाप्त हुआ।
- पूर्व ओलंपिक भाला चैंपियन दाना ज़ेटोपकोवा का निधन हो गया है। वह एक ओलंपिक भाला चैंपियन थी जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण जीता और 1960 में रोम में ओलंपिक रजत जीता।

## महत्वपूर्ण दिन

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसदिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय है, **I am Generation Equality: Realizing Women's Rights**. और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के लिए अभियान की थीम **#EachforEqual** है।
- हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च 2020 को मनाया गया। वर्ष 2020 के वर्ल्ड किडनी डे की थीम **"Kidney Health for Everyone Everywhere—from Prevention to Detection and Equitable Access to Care"** है।

## निधन

- पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हंस राज भारद्वाज का कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। हंस राज भारद्वाज की आयु 83 वर्ष थी।
- अपने करियर के दौरान दो बार ऑस्कर के लिए नोमिनेटेड होने वाले स्वीडिश अभिनेता मैक्स वॉन सिडो का निधन। उन्हें फिल्म "एक्सट्रीमली लाउड एंड इनक्रेडेबिली" में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था।
- जाने-माने बंगाली अभिनेता संतु मुखोपाध्याय का निधन। वे "संसार सिमान्ते (Sansar Simante) और भालोबासा भालोबासा (Bhalobasa Bhalobasa)" जैसी फिल्मों में अदा की भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय थे।

## विविध समाचार

- देश की राजधानी नई दिल्ली में "जलियांवाला बाग" पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (**National Archives of India**) के 130 वें स्थापना दिवस के अवसर पर "जलियांवाला बाग" प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा।
- इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है।
- गूगल इंडिया ने महिलाओं के लिए एक कौशल कार्यक्रम 'DigiPivot' का शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए आरंभ किया गया है, जो ब्रेक के बाद अपने कॉर्पोरेट करियर में वापस आने की कोशिश कर रही होती हैं या जो जॉब करते हुए अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग पर शिफ्ट करने की योजना बना रही होती है।
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (**CSIR**) की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा एक "**BI-Luminescent Security Ink**" तैयार की गई है। **CSIR**-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा नई इंक दो रंगों में तैयार की गई है: यह इंक 365 नैनो मीटर (**nm**) और 254 एनएम स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर लाल और हरे रंगों में चमकती है।
- **IDFC FIRST** बैंक ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने का ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ ही अमिताभ बच्चन इस बैंक के ब्रांड एंबेसडर बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।
- फेसबुक इंडिया ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल फेसबुक "प्रगति" लॉन्च की है। फेसबुक प्रगति **N/Core** (द/न्यूड सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन) द्वारा संचालित है।
- वेलकमग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन (**WGSHA**) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (**MAHE**) ने **WGSHA**, मणिपाल,
- कर्नाटक में "भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय" स्थापित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (**LBR**) में प्रवेश किया।

12 Months Subscription



BANK

Useful for Bank &amp; Insurance Exams

TEST PACK

## महत्वपूर्ण Takeaways

- यूक्रेन के राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेन्स्की।
- यूक्रेन की राजधानी: क्यीव।
- यूक्रेन की मुद्रा: युक्रैनियाई रिव्निया।
- पेटिएम के संस्थापक: विजय शेखर शर्मा।
- पेटिएम मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश।
- पेटिएम की स्थापना: 2010।
- केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय: नई दिल्ली।
- श्रीलंका के राष्ट्रपति: गोबतया राजपक्षे।
- श्रीलंका के प्रधानमंत्री: महिंदा राजपक्षे।
- श्रीलंका की राजधानी: श्री जयवर्धनेपुरा कोटे।
- श्रीलंका की मुद्रा: श्रीलंका रुपया।
- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव: एंटोनियो गुटेरेस।
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना: 24 अक्टूबर 1945।
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य।
- ओडिशा के राज्यपाल: गणेशी लाल।
- ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक।
- ओडिशा की राजधानी: भुवनेश्वर।
- ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान: भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलिपाल राष्ट्रीय उद्यान।
- भारतीय तट रक्षक महानिदेशक: कृष्णस्वामी नटराजन।
- भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय: नई दिल्ली।
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री: के चंद्रशेखर राव।
- तेलंगाना की राज्यपाल: तमिलिसाई तमिलिसै सौंदरराजन।
- तेलंगाना की राजधानी: हैदराबाद।
- केंद्रीय रेल मंत्री: पीयूष गोयल।
- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर।
- केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारामन।
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री: वाई एस जगनमोहन रेड्डी।
- आंध्र प्रदेश के राज्यपाल: बिस्वा भूषण हरिचंदन।
- आंध्र प्रदेश की राजधानी: अमरावती।
- श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर और कडप्पा जिलों में स्थित है।
- विशाखापत्तनम पोर्ट (19 दिसंबर 1933 में शुरू हुआ) भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। यह कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है।
- गुजरात के मुख्यमंत्री: विजय रूपानी; गुजरात के राज्यपाल: आचार्य देव व्रत।
- गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, जिसे सासन गिर के रूप में भी जाना जाता है, भारत के गुजरात में तलाला गिर के पास एक वन और वन्यजीव अभयारण्य है।
- सरदार सरोवर बांध, नवगाम, गुजरात के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल; उपराज्यपाल: अनिल बैजल।

- प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं।
- प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं।
- अफगानी अफगानिस्तान की मुद्रा है।
- काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है।
- कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं।
- वीपी सिंह बदनोर पंजाब के राज्यपाल हैं।
- मूडीज कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है।
- मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है।
- G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है।
- पोषण अभियान एक सरकारी मिशन है जो गरीब क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और गर्भवती माताओं के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।
- बनवारीलाल पुरोहित वर्तमान में तमिलनाडु राज्यपाल हैं और एडम्पादी के. पलानीसामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं।
- इसरो का मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक।
- इसरो के अध्यक्ष: के. सिवन।
- इसरो की स्थापना: 15 अगस्त 1969।
- नासा का मुख्यालय: संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी।
- नासा के प्रशासक: जिम ब्रिडेनस्टाइन।
- जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल: गिरीश चंद्र मुर्मू।
- बांग्लादेश की प्रधान मंत्री: शेख हसीना; राजधानी: ढाका; मुद्रा: टका।
- डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड; डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक: टेड्रोस एडहानॉम।
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर।
- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय।
- पिन वैली नेशनल पार्क भारत के खूबसूरत स्थलों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है।
- AdGlobal360 के सीईओ: राकेश यादव।
- हाकुहोडो इंटरनेशनल के अध्यक्ष: नोबुकी कोंडो।
- फोनपे का मूल संगठन: फ्लिपकार्ट।
- फोनपे की स्थापना: दिसंबर 2015।
- फोनपे के सीईओ: समीर निगम।
- मुख्यालय : बेंगलुरु, कर्नाटक।
- 28 वें सेनाध्यक्ष: जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ: बिपिन रावत।
- भारतीय सेना का आदर्श वाक्य: "Service Before Self".
- भारतीय सेना का मुख्यालय: नई दिल्ली।
- विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय: कोलोन-जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक: क्लाउस श्वाब।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष: बोरगे ब्रेंडे।
- विश्व आर्थिक मंच की स्थापना: जनवरी 1971।
- Google CEO: सुंदर पिचाई; मुख्यालय: कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका।

- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री: हरदीप सिंह पुरी।
- बीएसएफ का गठन: 1 दिसंबर 1965; BSF मुख्यालय: नई दिल्ली।
- जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (GAHSL) GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GHIAL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (GAHSL) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अमन कपूर।
- स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: अजय सिंह।
- गाम्बिया की राजधानी: बन्जुल।
- गाम्बिया की मुद्रा: गंबियन डालासी।
- गाम्बिया के राष्ट्रपति: अदमा बैरो।
- विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास; मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी।
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर; राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय।
- यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एमडी: रवनीत गिल; मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
- एसबीआई के अध्यक्ष: रजनीश कुमार; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 जुलाई 1955।
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता।
- वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की स्थापना: 1981।
- वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
- वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के अध्यक्ष: पॉल बाल्डविन।
- IDFC FIRST बैंक के एमडी और सीईओ: वी वैद्यनाथन; मुख्यालय: मुंबई।
- IDFC FIRST बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी।
- फेसबुक के सीईओ: मार्क जुकरबर्ग।
- फेसबुक मुख्यालय: कैलिफोर्निया, अमेरिका।
- माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): सत्य नडेला।
- माइक्रोसॉफ्ट स्थापित: 4 अप्रैल, 1975; माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय: वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस)।
- भारतीय डाक का मुख्यालय: नई दिल्ली।
- भारतीय डाक संचार मंत्रालय की एक सहायक कंपनी है।
- केंद्रीय संचार मंत्री: रविशंकर प्रसाद।
- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री: रामविलास पासवान।

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions

RBI ASSISTANT

MAINS

25 Total Tests | eBooks